



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019  
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur September 04, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/8674** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Fatehpur shekhawati has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Fatehpur shekhawati. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

नगर पालिका फतेहपुर जिला सीकर  
प्रपत्र - क

क्र.स	वार्ड संख्या	नव गठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	01	शेर सुल्तान से शुरू होकर दक्षिण में बांयी आबादी शामिल करते हुये किशनजी माली की दुकान से पूर्व मुडकर रामदेव बाटड़ निर्मल अस्पताल को शामिल कर त्रिलोकजी जांगिड के कारखाने तक इसे शामिल उत्तर में मस्जिद करिमिया तक इसे शामिल कर पश्चिम में मुडकर मणि बुआ के मकान को शामिल कर उत्तर में रहफ चेजारा को दांयी ओर छोडते हुये विश्वनाथ तिवाडी को शामिल को पश्चिम में दुगड स्कूल का खेल मेदान व इन्द्रलाल के मकान तक यहां से पूर्व मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये दुर्गा मन्दिर व रामलाल मुंशी हरिजन तक यहां से उत्तर मुडकर नन्दलाल पंवार के मकान तक यहां से पूर्व मुडकर अब्दुल गफार काजी के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर में मुडकर चेजारो के मदरसा को शामिल करते हुये रोड रोड एनएच65 सलीम काजी की खाली जमीन तक यहां से पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक स्थान।
2	02	हरिराम जीताराम/टोरूराम चौहान से शुरू होकर दक्षिण में सीमा - सीमा ज्योति

		रेस्टोरेन्ट एवं टेन्ट हाउस तक यहां से पूर्व मुड़कर बाई आबादी शामिल करते हुये सुभाष रोहिला की दुकान तक यहां से दक्षिण मुड़कर बाई आबादी को शामिल करते हुये अब्दुल हक के नोहरे तक इसे शामिल कर पूर्व मुड़कर दीलिप माकड के मकान एवं आचार्यों के श्मशान को शामिल करते हुये दाउद काजी के नोहरे तक, इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर भागीरथ ठेकेदार के शोरूम एवं सकील की फेक्ट्री को शामिल करते हुये दीपू धाबाई की कोठी तक इसे शामिल कर पश्चिम मुड़कर प्रारम्भ के घर तक।
3	03	शास्त्री सी. सै. स्कूल से मंगल पुरी होते हुये शामिल करते हुये सीमा - सीमा पूर्व में घुम कर अब्बास तंवर की चार दीवारी को शामिल करते हुये इकबाल पीनारा अनवर को शामिल करते हुये काजियो की खाली जमीन (तारबन्दी) को शामिल कर उत्तर दिशा में घुमकर कसाई के मकान तक, पूर्व घुमकर बाई आबादी शामिल करते हुये अहमद आमीन काजी को शामिल करते हुये मौहम्मद इलियास के नोहरे को शामिल कर उत्तर से पूर्व घुमकर आशा फ्लोर मिल को शामिल कर रामोतार भवन से पूर्व घुमकर बाई आबादी शामिल कर पठान अस्पताल को शामिल कर उत्तर घुमकर सोलंकी ट्रेडर्स तक, पश्चिम घुमकर फर्नीचर हाउस को शामिल करते हुये मूलचन्द नायक को शामिल कर उत्तर मुड़कर गोपाल मेघवाल को शामिल करते हुये भवरलाल जांगिड तक इसे शामिल कर पश्चिम घुमकर मोहम्मद हुसेन के बाडे को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक
04	04	इदरीस खोकर की चार दीवारी से शुरू होकर दक्षिण मे बाहय आबादी शामिल करते हुये सीमा सीमा चलते हुये भगवान राम मेघवाल को मिलाकर यहां से डालचंद तक यहां पश्चिम मुड़कर खुशी मोहम्मद/ रफीक खोकर तक इसे शामिल कर यहां से दक्षिण मे बायीं आबादी को शामिल करते हुये सीमा सीमा चलते हुये मदन बालाण के घर को शामिल करते हुये यहां से पूर्व घुमकर मनोज बालाण को शामिल कर यहां से मूडकर किशनजी बालाण को शामिल करते हुये आसिफ के फार्म हाउस तक यहां से पूर्व मुड़कर बायीं आबादी को शामिल करते हुये गफार सोलंकी के मकान को शामिल कर व्यापारी का खाली प्लाट तक इसे शामिल कर उत्तर दिशा मे अयुब खोकर के घर को शामिल करते हुये दायीं और ताबू की बाडी को छोडकर मोहम्मद आसिफ के घर तक इसे खाली प्लाट को शामिल कर पश्चिम मुड़कर सोलंकी पोप तक इसे शामिल कर यहां से उत्तर मुड़कर समुन खोकर तक इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर सेफकेयर अस्पताल को शामिल करते हुये करणी टी स्टाल व जूस सेन्टर तक यहां से पश्चिम मुड़कर गुलाम नबी के मकान तक यहां से दक्षिण मुड़कर युनूस के मकान तक यहां से बायीं आबादी को शामिल करते हुये गुलाम मुस्तफा के खाली प्लाट तक यहां से

		दक्षिण मुडकर हाजी भाटी के खाली प्लाट तक यहां से कोठी वाले खाली प्लाट को शामिल कर पश्चिम मुडकर प्रारंभिक स्थान तक।
05	05	मोहम्मद भाटी के घर से शुरू होकर दक्षिण में मुडकर बायीं आबादी को शामिल करते हुये प्रहलाद महिचा को शामिल करते हुये व लक्ष्मण बालाण के खाली नोहरे को शामिल करते हुये पश्चिम दिशा में चलते हुये रामनिवास महिचा व राजकुमार/हनुमान प्रसाद रतनगढ वाले को शामिल करते हुये मोती सैनी के घर तक यहां से दक्षिण दिशा में बांयी आबादी शामिल करते हुये सोहन लाल महिचा व रामप्रसाद महिचा के घर तक यहां से पूर्व मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये सांसियो की बस्ती व चोधरियो के कुवे को अन्दर की ओर छोडकर (शामिल कतरे हुये) मोतीराम महिचा के मकान तक यहां से एनएच 52 पर जगदीश जाट की दुकान तक सीमा को शामिल कर उत्तर में घुमकर बांयी आबादी को शामिल कर बजरंग ट्रेडर्स को शामिल करते हुये हुये ताबू की बाडी को शामिल करते हुये सोलंकी के खाली प्लाट तक यहां से पश्चिम होकर इसे शामिल कर फातमा मस्जिद को शामिल कर अब्दुल काजी तक यहां से दक्षिण मुडकर प्लाट को शामिल करते हुये पूर्व मुडकर खाली प्लाट तक यहां से बांयी आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण मुडकर ताबू की बाडी (नरोतम महिचा को शामिल कर) यहां से पश्चिम मुडकर भंवरलाल बालाण को शामिल कर रामगोपाल महिचा से प्रारंभिक स्थान तक।
06	06	भागीरथ मल सैनी से शुरू होकर गोगा जी की मेडी से दक्षिण की तरफ बाई आबादी शामिल करते हुये अब्दुल गफुर खोकर के मकान तक यहां से पश्चिम से उत्तर होते हुये सोलंकी धर्म कांटा के मकान तक यहां से पूर्व से उत्तर मुडकर सलीम/याकूब खोकर अब्बार तंवर के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम मुडकर बीबी का कुआ जाकिर सलीम चौधरी को शामिल करते हुये खालीद पीनारा व सकीला/युसूफ सोलंकी तक यहां से उत्तर मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये उस्मान गनी सोलंकी से पूर्व मुडकर कब्रिस्तान को शामिल करते हुये सोलंकी चिकन सोप तक यहां उत्तर मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये याकूब पठान तक यहां से पश्चिम में मुडकर काजियो का मदरसा से उत्तर मुडकर बाई आबादी को शामिल कर कब्रिस्तान होते हुये न्यू सुपर सर्विस सेन्टर एनएच 52 तक यहां से दक्षिण से पश्चिम मुडते हुये प्रारंभिक स्थान तक
07	07	अब्दुल रहमान इस्माईल सोलंकी से शुरू होकर दक्षिण में अब्दुल रमजान तक यहां से पूर्व से दक्षिण मुडकर लियाकत बखेत खोकर तक यहां से पूर्व घुमकर युनूस बखेद तक यहां से दक्षिण घुमकर युनूस इब्राहिम खोकर तक यहां से पश्चिम मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये अबू हनीफा मस्जिद को

		शामिल करते हुये उमर भाटी के खाली नोहरे तक यहां दक्षिण मुडकर करीम सोलंकी नोहरे तक यहां से यहां से पूर्व मुडकर बाई आबादी एवं आशाराम शास्त्री को शामिल करते हुये फारुक गुचिया तक यहां दक्षिण मुडकर युसूफ बखेद तक इसे शामिल कर पूर्व से उत्तर कृष्णा पाठशाला व कुवेती मस्जिद को शामिल करते हुये मुस्तफा बेहलीम के नोहरे तक यहां से पश्चिम मुडकर खलील बखेद के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर गफुर प्लास्ट वाले का मकान यहां से पश्चिम मुडकर बडी मस्जिद को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
08	08	एलुमिनियम फेक्ट्री से शुरू होकर दक्षिण में होटल हयात तक बाई आबादी शामिल करते हुये पूर्व मुडकर आजम खोकर (काजी) तक यहां से दक्षिण मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये लियाकत/अब्दुल काजी तक यहां से पूर्व मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये याकुब व्यापारी हसन मंजील तक यहां से दक्षिण मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये कलसूम महमूद हुसेन तक यहां बाई आबादी शामिल करते हुये सरीफ खोकर तक यहां से पूर्व दिशा में मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये अयूब भाटी तक यहां से उत्तर मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये अनवर भाटी के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर मो. सोलंकी के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर अब्दुल गनी/सकरू सोलंकी को शामिल करते हुये याकुब हुसैन सोलंकी के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम से उत्तर मुडकर सदीक व्यापारी के मकान को शामिल करते हुये सकुर रजाक गौरी के मकान तक, इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर याकुब/अहमद जिन्द्रान के मकान तक, इसे शामिल कर उत्तर मुडकर कागलिया कुए की टंकी तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर अकबर अली व बाई आबादी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
09	09	ओमजी आचार्य की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में बाई आबादी शामिल करते हुये गुलाम/सरवर हाजी युसूफ/सैयद तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर बाई आबादी शामिल करते हुये तैयब इब्राहिम खोकर तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर याकुब बखेत तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर जब्बार कुरेशी तक। यहां से बाई आबादी को शामिल करते हुये उत्तर मुडकर जब्बार के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर मकान हाजी इस्माईल चोहान आयशा मंजिल तक यहां से बाई आबादी शामिल करते हुये पुलिस चौकी तक यहां से पश्चिम मुडकर मुस्तफा चोहान को शामिल कर दक्षिण में रोड - रोड गुलाब नबी काजी तक यहां पश्चिम मुडकर लादु खां को शामिल कर उत्तर से पश्चिम मुडकर समीर पुत्र करीम खां के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण में सरवर खां कायमखानी तक एवं मदरसा इस्लामिया को शामिल कर पश्चिम मुडकर बाई आबादी शामिल करते हुये काजियो के मकान तक यहां से दक्षिण मुडकर रामचन्द्र नाईक के

		मकान तक यहा से पश्चिम मुडकर अब्दुल वहाब खोकर तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर मालियो के मकान तक पाबूजी के मन्दिर को दाई ओर बाहर छोडते हुये पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक स्थान तक
10	10	अर्जुन लाल गुर्जर से शुरू होकर दक्षिण मुडकर मदरसा इस्लामिया (युसूफ लेहरा) तक बाई आबादी को शामिल करते हुये पूर्व में मुडकर पाबूजी (नायको का मन्दिर) को शामिल करते हुये मूसा व्यापारी तक दक्षिण मुडकर बाई आबादी का शामिल करते हुये मोहम्मद उमर/यासीन सैयद तक यहां से पूर्व मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये गोविन्द नायक तक यहां उत्तर मुडकर मदरसा काजियान की सम्पति से पूर्व मुडकर मोहन लाल के मकान तक से हुसेन खां कायमखानी को शामिल कर उत्तर मुडकर हमीद काजी तक हबीब इब्राहिम के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण से पूर्व मुडकर गुलाब मंजिल होते हुये मुस्लिम अलादीन को शामिल कर उत्तर में इनायत खां के मकान को शामिल कर यहां से पूर्व मुडकर मदीना गेस्ट हाउस को शामिल कर उत्तर मुडकर शेखावाटी स्कूल तक यहां से पश्चिम मुडकर शिल्पशाला शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
11	11	अशोक सीतगर एल्यूमिनियम की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में फतेहपुर बालिका स्कूल को शामिल करते हुये रमीज हाउस पश्चिम दिशा में मुडकर मस्जिद को शामिल करते हुये जाबीर/शमसुलहक काजी के नोहरे तक यहा से दक्षिण दिशा में मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुये रजाक/अब्दुल गनी तंवर के मकान को शामिल कर पश्चिम मुडकर मोहम्मद यासीन सोलंकी के मकान तक यहा से दक्षिण मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये हुसैनी चोक इस्माइल सोलंकी के मकान से पूर्व मुडकर कागलिया कुआ को दाई ओर बाहर छोडते हुये बाई आबादी को शामिल करते हुये डुंडलोदिया हाउस को शामिल करते हुये रमजान तंवर के मकान (बुजा वाली नाल) तक इसे शामिल करते हुये उत्तर मुडकर अब्दुल करीम को शामिल करते हुये एवं मोहम्मद जीन्द्राण के नोहरे को शामिल करते हुये सीधे खाकी कुए तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर अनाथालय को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक
12	12	मुस्तका शब्बीर खोकर से प्रारम्भ होकर दक्षिण मुडकर छोटी मस्जिद तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर ईस्माइल अलाउदीन के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण में मुडकर इकबाल पिनारा के मकान को शामिल कर पूर्व में मुडकर शीशग्राम मदरसा व मस्जिद को शामिल कर उत्तर दिशा में घुमकर नूर लीलगर की दुकान को शामिल कर पश्चिम में मुडकर फारूख अब्दुला पिनारा को शामिल कर यहा से उत्तर मुडकर इस्माइल पिनारा तक यहा से पश्चिम मुडकर हुसैन गुचिया के मकान को शामिल कर उत्तर में सरवर गुचिया के मकान तक

		पश्चिम में मुडकर प्रारम्भिक स्थान तक।
13	13	इदरीश जिन्दराण के घर से शुरू होकर दक्षिण में मुडकर हासन अली काजी तक इसे शामिल कर यहा से पूर्व मुडकर मूसा गुचिया तक इसे शामिल कर यहा से दक्षिण मुडकर रब्बानी सोलकी के घर को शामिल कर यहा से पूर्व मुडकर इसे शामिल करते हुए युसुफ आसन जिन्दरान तक इसे शामिल कर यहा से दक्षिण मुडकर कसरा गोरी तक इसे शामिल कर यहा से पूर्व मुडकर जावेद/आमीन खोकर तक यहा से उत्तर मुडकर DHP दाउद तक इसे शामिल कर यहा से पश्चिम मुडकर सदीक गौरी तक इसे शामिल कर यहा से उत्तर मुडकर युसुफ गौरी तक यहा से पश्चिम मुडकर बाई आबादी को शामिल करते हुए प्रारम्भिक स्थान तक।
14	14	फारूख खोकर के मकान से शुरू होकर दक्षिण में महबुब काजी को शामिल करते हुए ट्रान्सफार्मर तक इसे शामिल कर पूर्व में बाई आबादी को शामिल करते हुए आमीन/ इब्राहीम सब्जीफरोश को शामिल करते हुए दक्षिण मुडकर मजीत/खेता तक यहा से पूर्व मुडकर यासीन गीगा तक इसे शामिल कर यहा से उत्तर मुडकर आमिन तक इसे शामिल कर यहा से पूर्व मुडकर बाबू मोजू सब्जीफरोश तक इसे शामिल कर दाउद सरवर सब्जीफरोश तक यहा से उत्तर मुडकर सरीफ के घर को शामिल करते हुए मदनी मस्जिद को बाहर छोडते हुए सबीर भाटी तक यहा से उत्तर मुडकर मुर्तजा चौहान को शामिल करते हुए जीवण खा निर्वाण तक यहा से पश्चिम में मुडकर जमीदारो के तकिये को शामिल करते हुये जय कुमार सिकरीया की दुकान तक इसे शामिल कर पश्चिम में मुडकर चिरंजीलाल सिकरीया की दुकान व नूर लीलगर के मकान को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।
15	15	इदगाह के उत्तरी पश्चिम कोने से शुरू होकर होकर दक्षिण में मदनी मदरसा तक इसे शामिल कर पश्चिम में मुडकर मदनी मस्जिद तक यहां से उत्तर मुडकर लियाकत की चक्की तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर शफी/लालू कुंजडा तक इसे शामिल कर दक्षिण में मुडकर उसमान सब्जीफरोश को शामिल करते हुये यहां से पश्चिम में मुडकर उमेद सफु सब्जीफरोश को शामिल कर आमीन बारदाना को शामिल कर यहां से उत्तर मुडकर युसूफ इब्राहिम तक इसे शामिल कर यहां से पश्चिम मुडकर मुस्तफा काजी के नोहरे को शामिल करते हुये कृष्णा पाठशाला को बाहर छोडते हुये मुस्तफा बेहलीम के नोहरे तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर इसे शामिल कर युसूफ अब्दुला मीर के मकान को शामिल कर सलीम यासीन खां परिहार को शामिल करते हुये यहां से उत्तर मुडकर गुलाम दस्तगीर को शामिल कर बांयी आबादी को शामिल करते हुये गफुर खोकर तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर इस्माईल मीनू सब्जी फरोस

		तक यहां बशीर अब्दुला को शामिल कर दक्षिण मुड़कर शोकत उमर/नारू खां तक इसे शामिल कर पूर्व मुड़कर इस्माईल टेलर के मकान को शामिल कर इंकलाब मकबूल परिहार को शामिल कर मदरसा इस्लामिया तालेमून तक यहां से उत्तर मुड़कर इसे शामिल कर इदगाह स्कूल तक यहां से पश्चिम मुड़कर प्रारम्भिक स्थान तक।
16	16	शब्बीर खोकर के घर से शुरू होकर दक्षिण में मुड़कर कासम के नोहरे को शामिल करते हुये सोलंकी धर्मकांटा को बाहर छोड़कर खाली जमीन से पूर्व मुड़कर बांयी आबादी को शामिल करते हुये आजाद स्कूल ग्राउण्ड व गफार खां ग्राउण्ड को शामिल कर यहा उत्तर मुड़कर बाई आबादी को शामिल करते हुये मुल्ला टाईपिस्ट को बहार छोड़ते हुए यहा से पश्चिम मुड़कर कासम के नोहरे को शामिल करते हुए बिलाल के घर को शामिल करते हुए इमरान/माँ हनीफ लीलगर तक इसे शामिल कर दक्षिण में मुड़कर दाउद मीनु सब्जी फरोश को शामिल करते हुये बाई आबादि को शामिल करते हुए तैयुब मेहराब खां के घर को शामिल करते हुए काजीयो के खाली प्लाट एवं वाहीद नाई के मकान तक यहा से उत्तर मुड़कर आरिफ/ इकबाल काजी के नोहरे को शामिल करते हुए एवं इकबाल के नोहरे को शामिल कर छीपा मेडिकल वाले के खाली प्लाट तक यहा से पूर्व मुड़कर इसे शामिल कर इब्राहिम खां जोड तक इसे शामिल कर यहा से उत्तर मुड़कर शौकत जोया के नोहरा तक इसे शामिल कर पश्चिम मुड़कर लियाकत के मकान तक इसे शामिल कर सत्तार नाई तक यहा से मुड़कर यासीन मोयल तक इसे शामिल कर दक्षिण में मुड़कर युसुफ जोड तक यहा से पश्चिम मुड़कर बिलाल के मकान को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक।
17	17	शोकत जोया के घर से शुरू होकर सिकन्दर देवडा तक यहा से पश्चिम मुड़कर मुस्तफा गफार जोया के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण मुड़कर ज्योति पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुये नूर लीलगर तक यहा से उत्तर मुड़कर सदीक लीलगर के मकान को शामिल करते हुए यहा से पूर्व मुड़कर सदीक लीलगर के नोहरे को शामिल करते हुये अहमद लीलगर के प्लाट तक यहा से दक्षिण मुड़कर मुल्ला टाईपिस्ट को शामिल करते हुए मक्की मस्जिद को शामिल करते हुये खलीफा कब्रिस्तान को शामिल करते हुए आरिफ सब्जी फरोश तक यहा से पूर्व मुड़कर महमुद खोकर के मकान तक यहा से उत्तर मुड़कर कब्रिस्तानो को शामिल करते हुए एवं कलन्दरी मस्जिद को बहार छोड़ते हुए डॉ. जब्बार जोड को शामिल करते हुए पश्चिम मुड़कर कासम की खाली जमीन को शामिल करते हुये सलीम खाती के घर को शामिल करते हुए प्रारम्भिक स्थान तक।
18	18	शिवभगवान सिकरीया की दुकान शुरू होकर दक्षिण में निसार खां पडिहार लाल

		बैस के मकान को शामिल कर रतिराम नारूका (नवल नाउका) तक इसे शामिल कर पूर्व घुमकर लाल खां लहंगा के मकान को शामिल करते हुये इब्राहिम जबार के मकान को शामिल कर गफार खां रोड पर गफार खां जोड के मकान तक यहां से दक्षिण में बाबूखां चोहान की दुकान तक यहां से पूर्व मुडकर जुनेद युसूफ सरकेल के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर मोहम्मद खां बाडे तक इसे शामिल कर पश्चिम से उत्तर घुमकर बाजोरिया गेस्ट हाउस तक इसे शामिल कर केशरदेव सिकरिया एवं सीटी सेन्टर मार्केट को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
19	19	मोदी अस्पताल से शुरू होकर दक्षिण में मुडकर बांयी आबादी को शामिल करते हुये युसूफ लहरा के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर रघुनाथ रामसिसरिया के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर शेरा मोची के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व से दक्षिण मुडकर सकूर लीलगर यहां से पूर्व मुडकर कसाईयो को घर व अब्दुल गनी लीलगर से दक्षिण मुडकर दाउद पीनारा तक यहां से पूर्व मुडकर मुंशी की दुकान तक यहां से दक्षिण में शीशग्रान मस्जिद को बाहर छोडते हुये यासीन निवाई वाले की दुकान तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर चिरंजीलाल सिकरिया की दुकान को शामिल कर दक्षिण मुडकर मुंशी चौहान के मकान को शामिल कर पूर्व से दक्षिण मुडकर खान दूध डेयरी तक यहां से उत्तर मुडकर दडेदोलत खां मस्जिद तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर कालू पनवाडी की दुकान तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये महेद्गा गोटेवाले की दुकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर सीताराम सराफ सोहनलाल दुगड को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
20	20	सुशील भोजक के मकान से शुरू होकर दक्षिण में बांयी आबादी शामिल कर जब्बार चेजारा के मकान तक इसको शामिल कर पूर्व से दक्षिण मुडकर गिरधारी बबेरवाल को शामिल करते हुये विश्वनाथ की दुकान तक इसे शामिल कर पूर्व में द्गिाव कुमार तिवाडी को शामिल करते हुये हनुमान प्रसाद मुसदी के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर बनवारी जांगिड के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर मिश्रो की सती को शामिल करते हुये रतनलाल महर्षि के मकान तक इसको शामिल करते हुये उत्तर मुडकर मुरलीधर जी भिण्डा से गोपी भार्गव के मकान को शामिल करते हुये राजकुमार पुरूषोत्तम थलिया के मकान तक इसे शामिल कर भैरूजी के मन्दिर जति जी के बाडा के अन्दर तक इसे शामिल पश्चिम मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये मनोज भार्गव को शामिल करते हुये रतन दर्जी के मकान तक इसे शामिल कर बजरंगल कुम्हार तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर शंकर कुम्हार तक इसे पूर्व मुडकर गुरु कुम्हार तक यहां से दक्षिण मुडकर रोद्गान मणियार तक यहां से पश्चिम मुडकर बली कुम्हार तक



		यहां से दक्षिण मुडकर रामकुमार भोजक (स्कूल) तक यहां से पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक स्थान तक।
21	21	केशर देव मिश्रा से शुरू होकर प्याउडी वाले दरवाजे से बांयी आबादी शामिल करते हुये भगवती प्रसाद सराफ व गणपत हलवाई के मकान को शामिल कर पश्चिम मुडकर भंवरलाल भोजक महावीर प्रसाद जांगिड कोठयारी की हवेली तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर रोड रोड चलते हुये बांयी आबादी शामिल करते हुये देवकीनन्दन सराफ की हवेली तक इसको शामिल कर सागरमल लोहिया के मकान को शामिल करते हुये नेमीचन्द स्वामी की दुकान तक इसको शामिल कर उत्तर में लक्ष्मीनाथ मन्दिर को शामिल कर श्रीलाल चमडिया की हवेली को शामिल कर सुरेखो के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम में घुमकर थाना कुम्हार को शामिल कर रमेश केशान की कोठी तक यहां से उत्तर मुडकर मोतीलाल छकडे के नोहरे तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर हनुमान प्रसाद जोशी के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर बासूदेव सराफ के मकान तक यहां से पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक स्थान तक
22	22	सांवरमल सुनार के मकान से शुरू होकर दक्षिण में इन्द्रलाल खाती के मकान को शामिल करते हुये चिमंजी खाती के मकान तक यहां से पश्चिम मुडकर भंवरलाल के मकान तक यहां से दक्षिण में मुडकर पवनजी शर्मा के मकान को शामिल कर लुणकरण दुर्गादत्त के मकान तक यहां से पूर्व मुडकर नन्दू भादूपोता की दुकान तक यहां से दक्षिण मुडकर सुरजमल बनवारीलाला सराफ के नोहरे तक यहां से पूर्व मुडकर पुरुषोत्तम गोस्वामी व रामगोपाल चोटिया को शामिल करते हुये शंकरलाल बोचीवाल के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर प्रकाश पुरोहित व केद्गार देव सुनार को शामिल करते हुये सरस्वती स्कूल तक यहां से पूर्व मुडकर श्यामजी बोचीवाल की दुकान को शामिल कर पौदारो की टंकी तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर बाई आबादी शामिल कर कालीजी मन्दिर को बाहर छोडते हुये लुहारो के नोहरे तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर प्रहलाद माली और बालाजी मन्दिर को शामिल कर मंगलचन्द माली को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक।
23	23	चण्डी की धर्मशाला के नोहरे के उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरू होकर दक्षिण में भरतिया अस्पताल को दांयी ओर बाहर छोडते हुये चमडिया दवाखाना व चमडिया चक्की को शामिल करते हुये खुबजी की दुकान को शामिल करते हुये रामलाल चाट की दुकान तक इसे शामिल कर पूर्व में रामा चमडिया के कारखाने को शामिल कर इन्द्रलाल देवडा तक इसे शामिल कर दक्षिण में मुडकर कल्याण ओषधालय को शामिल कर हुकमा ठठेरा के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व में दुर्गादत्त धेलिया को शामिल करते हुये चण्डीप्रसाद बिंयाला को शामिल करते

		हुये उत्तर से पूर्व घुमकर गणेदगा भूखरेडी के मकान को दांयी ओर बाहर छोडते हुये विष्णु चौमाल तक यहां से उत्तर मुडकर अग्रसेन भवन को नोहरा व शंकर राव के मकानो को शामिल करते हुये पश्चिम में दीपू धेलिया को शामिल करते हुये यहां से उत्तर मुडकर नेवटिया स्कूल तक इसे शामिल कर पूर्व घुमकर मन्नीराम मास्टर व शंकर सरावगी की दुकान व लक्ष्मीनाथ मन्दिर को शामिल करते हुये ठलुआ आश्रम तक यहां से उत्तर मुडकर देवडा स्कूल व खेमका सती को शामिल करते हुये लोहिया की प्याउ तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक स्थान तक
24	24	हमीद मुरीद के मकान से शुरू होकर दक्षिण में ओसवालो की चढाई सोहनलाल दुगड के कमरे को शामिल करते हुये त्रिलोकचन्द दुगड के नोहरे तक इसको शामिल कर पूर्व मे रमाकान्त भोजक यहां से दक्षिण से पूर्व घुमकर वेदप्रकाश भोजक के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर जगदीश जी बामणोलिया को शामिल करते हुये प्यारूडी के दरवाजे के अन्दर से पवन मिश्र के मकान तक यहां से पूर्व मुडकर पांगलती कुई को शामिल कर मोतीलाल जोशी के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर डाकोतो की हवेली तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर अनील भार्गव के मकान यहां से दक्षिण से पूर्व मुडकर महावीर खेडवाल को शामिल करते हुये काशीप्रसाद धानुका के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर केशर देव अशोक चमडिया की हवेली को शामिल करते हुये सुरेको की धर्मशाला से श्यामजी की छतरी को शामिल कर गेस एजेन्सी को शामिल करते हुये रतनलाल भरतीया की हवेली तक यहां से पश्चिम मुडकर भरतीया अस्पताल को दांयी ओर बाहर छोडते हुये शनि महाराज मन्दिर को शामिल करते हुये असगर मुरीद के मकान तक यहां से दक्षिण में मुडकर गणेदगा बियाणी को शामिल करते हुये पीडी बोचीवाल की कोठी तक यहां से पश्चिम मुडकर बांयी आबादी लेते हुये सुरेदगा टीडा के मकान को शामिल करते हुये आत्मराम क्याल की हवेली व गौगराज सोनी के मकान को शामिल करते हुये बाबूलाल हरितवाल के बन्द मकान तक इसको शामिल कर उत्तर मुडकर गुसाई बगीची को शामिल कर जयदेव सारस्वत के मकान तक यहां से दक्षिण में मुडकर मुरलीधर जी भिण्डा के बाडे को शामिल कर कन्हैयालाल सराफ के मकान तक यहां से राधेश्याम महर्षि को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक।
25	25	राजकुमार तिवाडी की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में आशाराम पोदार की दुकानो तक यहां से बाजार बाजार होते हुये सब्जी मण्डी तक इसको शामिल कर पूर्व से दक्षिण मुडकर लक्ष्मीनाथ विधालय को शामिल कर गौड अस्पताल तक इसे शामिल कर पूर्व मे रिछपाल पारीक के मकान को शामिल कर उत्तर में नटवर चोधरी के मकान तक इसको शामिल कर रेशमा छीपा की दुकान तक इसे शामिल

		<p>कर पूर्व में दुर्गा मार्केट को शामिल कर केडिया अस्पताल को छोड़ते हुये दक्षिण से पूर्व घुमकर पवन पुजारी के मार्केट तक इसे शामिल कर दक्षिण में सुखानन्द हवेली को शामिल कर महावीर पुजारी बालाजी मन्दिर तक इसे शामिल कर रतनलाल माटोलिया को शामिल कर गौड भवन तक इसे शामिल कर पूर्व में प्रहलादराय ढांडणिया के मकान को शामिल कर उत्तर से पूर्व में डिजीटल फोटो स्टूडियो तक यहां से दक्षिण से पूर्व घुमकर केडिया अतिथी गृह तक इसे शामिल कर परतु की दुकान प्रेरणा भवन चोहानो की दुकान को शामिल करते हुये गिरधारीलाल चाकलान के नोहरे तक इसे शामिल कर पश्चिम में पुरानी नगर पालिका अग्रसेन भवन को शामिल कर दक्षिण से पश्चिम घुमकर हरि भगवान चौमाल व गणेद्गा भूखरेडी वाले के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण से पश्चिम मुड़कर चौधरी पंचायत तक इसे शामिल कर रास्ता पर कर पप्पू तिवाडी एवं शिवालय मन्दिर को शामिल करते हुये फलकू दायमा तक यहां से पश्चिम मुड़कर देवडा की चक्की को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।</p>
26	26	<p>इदगाह वाटरवर्कस की टंकी से शुरू होकर दक्षिण में महमूद काजी तक यहां से पूर्व मुड़कर मो0 इस्माईल मिस्त्री से उत्तर मुड़कर याकूब भाटी सलीम पठान तक यहां से पूर्व मुड़कर सलीम देवडा के मकान को शामिल कर सुभाष बागोरिया नाई तक रामदेवजी के मन्दिर को शामिल करते हुये सीधे शकुर को शामिल करते हुये उत्तर मुड़ते हुये सलीम छीपा के मकान तक यहां से उत्तर मुड़कर मुरारका कुआ को शामिल करते हुये यहां पूर्व चलकर छिपो के नोहरे तक यहां से उत्तर मुड़कर सलीम तेली के मकान तक यहां से पश्चिम मुड़कर अमर अस्पताल को दांयी ओर बाहर छोड़ते हुये दक्षिण से पश्चिम मुड़कर दाउद छीपा तक यहां से उत्तर मुड़कर आमीन तक यहां से पश्चिम मुड़कर आमीन जी के पिछे तक यहां से दक्षिण मुड़कर मुरारका कुआ तक यहां से पश्चिम मुड़कर रतन पारीक तक यहां से उत्तर मुड़कर शिवराज डॉक्टर के नोहरे तक यहां से पश्चिम मुड़कर सलाम के मकान तक यहां से उत्तर मुड़कर सकूल तेली तक यहां से पश्चिम मुड़कर शबीर/इब्राहिम तक यहां से दक्षिण मुड़कर मोहम्मद हुसेन के बाडे तक यहां से पूर्व दक्षिण मुड़कर बानो/सरीफ तक यहां से दक्षिण मुड़कर अमजद के मकान तक यहां से पश्चिम मुड़कर यूनानी अस्पताल को शामिल कर पश्चिम की तरफ प्रारम्भिक स्थान तक।</p>
27	27	<p>विजय कुमार बिंयाला की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में एस.बी.आई. बैंक जैन बडा मन्दिर को शामिल करते हुये मोती मिष्ठान भण्डार तक इसे शामिल कर पूर्व में सरस्वती ट्रेडिंग मार्केट को शामिल करते हुए दूध की डेयरी की दुकान तक इसे शामिल कर दक्षिण घुमकर परतुराम की चक्की को शामिल कर डॉ. अशोक शर्मा की पुरानी डिस्पेन्सरी तक यहां से पूर्व घुमकर बाजोरियो की कोठी</p>

	<p>व कैनरा बैंक को शामिल करते हुये अशोक गनेडीवाल की हवेली को शामिल कर दक्षिण में गफार तेली तक यहां से पूर्व मुडकर धरमचन्द सीकरिया तक यहां से दक्षिण मुडकर अब्दुल सलाम जब्बार तक यहां से पूर्व घुमकर शैतान सिंह का नोहरा तक यहां से दक्षिण मुडकर शिवराज अस्पताल को शामिल करते हुये याकूब मणियार तक यहां से पूर्व मुडकर मूसा छींपा के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर सतार छींपा तक यहां से पूर्व मुडकर गफुर रिमजू छींपा तक यहां से दक्षिण से पूर्व मुडकर गुलामो के घर तक व अमर अस्पताल तक यहां से दक्षिण मुडकर दीनदयाल के नौहरे तक यहां से पूर्व मुडकर बोयतराम पोदार के मकान को शामिल कर उत्तर में सीताराम केडिया की हवेली को शामिल करते हुये गजानन्द पारीक की दुकान व मकान को शामिल करते हुये मार्केट की दुकान उत्तरी पूर्वी कोने की रतनलाल माटोलिया की दुकान तक इसे शामिल कर पश्चिम में निवास केडिया के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर से पश्चिम मुडकर रंगोली टावर मार्केट को शामिल कर हुलास के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर में जैन ओषधालय को शामिल कर राधा अस्पताल तक इसे शामिल कर सुखानन्द सरावगी के नोहरे तक इसको शामिल कर पश्चिम से उत्तर मुडकर मार्केट के पूर्वी उत्तरी कोने तक इसको शामिल कर केडिया अस्पताल मखन सराफ की दुकान को शामिल करते हुये बाजोरिया गेस्ट हाउस तक इसे शामिल कर दक्षिण में चतुर्भूज माताजी के मन्दिर रिछपाल पारीको के नोहरे को शामिल करते हुये विजय कुमार बिंयाला के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम में तोलम्बीया शोपिंग सेन्टर तक इसे शामिल कर उत्तर में लक्ष्मीनाथ बाल विधा मन्दिर को शामिल करते हुये अशोक सोनी की दुकान तक इसे शामिल कर पश्चिम में यूनियन टेलर एवं रामौवतार पान वाले की दुकान को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक</p>
28	<p>28 गफार गनी खां देवडा से शुरू होकर दक्षिण में बाई आबादी व कलन्दरी मस्जिद को शामिल करते हुये व यासीन सिक्का के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम से दक्षिण में घुमते हुये 132 GSS तक इस शामिल कर पूर्व मुडकर सदर थाने तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर बाई आबादी ग्लैक्सी होटल व लक्ष्मीनाथ ऑटो पार्टस को शामिल कर शनि मन्दिर को शामिल करते हुये गोपी चोटिया की दुकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर छतरीया को शामिल करते हुये देवडा गार्डन तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर इकबाल रमजान छिंपा तक इसे शामिल कर यहां से पश्चिम मुडकर इदरीश सरकेल के नये मकान तक यहां से दक्षिण मुडकर बांयी आबादी को शामिल करते हुये शबीर काजी के मकान को शामिल कर यहां से पश्चिम मुडकर रामदेवजी के मन्दिर को दांयी ओर छोड़ते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।</p>

29	29	<p>सारस्वतो के बालाजी के मन्दिर से शुरू होकर दक्षिण में बाई आबादी शामिल कर नगर पालिका घडवा जोहडा को शामिल करते हुये सीमा - सीमा बुद्धगिरी जी मण्डी को शामिल कर उत्तर मुडकर काली माताजी मन्दिर को शामिल कर सीमा - सीमा जोगियो के मकान तक यहां से पश्चिम से उत्तर में घुमकर आमीन कायथ तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर हाजी हुसेन कायथ को शामिल करते हुये सीराज बेहलीम के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर मोहिदीन गोरी के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर अब्बास गोरी के मकान तक इस शामिल कर उत्तर मुडकर सुनारो की बाडी धोबियो की मस्जिद की पानी की टंकी को शामिल करते हुये करीम धोबी के मकान तक यहां से पश्चिम मुडकर सुलेमान गुर्जर (आमीना मंजील) के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर बाई आबादी शामिल करते हुये बडे कुए तक यहां से पश्चिम मुडकर बाई आबादी व श्यामसदन को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक</p>
30	30	<p>खालीद धोबी के मकान से शुरू होकर दक्षिण में गफुर झबरू एवं गफार गुजर को शामिल करते हुये पूर्व में सरवर तगाला को शामिल कर दक्षिण मुडकर इमरान सैयद तगाला तक यहां से पूर्व मुडकर रहमत महमूद तक यहां से दक्षिण मुडकर गिरधारीलाल चुनवाल तक यहां से पूर्व मुडकर सिराज सदीक तक यहां से उत्तर मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये यहां से पूर्व मुडकर लीलू काजी की दुकान तक यहां से उत्तर मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये यहां से पूर्व मुडकर शेखो की कुई को शामिल करते हुये यहां से पश्चिम मुडकर इकबाल मनीर काजी के मकान को शामिल करते हुये व बायी आबादी को शामिल करते हुये काजियो व युसूफ गोरी के मकान को शामिल कर पश्चिम में साले मोहम्ममद के मकान को शामिल करते हुये सोकत इलू व्यापारी के नोहरा तक बांयी आबादी शामिल करते हुये सत्तार व हारून के मकान तक धोबियो के नोहरे को दांयी ओर बाहर छोडते हुये पश्चिम मे पुरानी कोर्ट के बांयी आबादी शामिल करते हुये बुद्ध गुजर तक यहां से उत्तर से पूर्व पार्शद रफीक भाटी के मकान के बांयी आबादी शामिल करते हुये चान्द व्यापारी के मकान तक यहां से पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक स्थान खालीद धोबी के मकान तक।</p>
31	31	<p>डिबरूगढ वालो की हवेली (मन भावती) से शुरू होकर दक्षिण में आशारामजी के मन्दिर तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर हरिराम जोशी के मकान तक यहां से दक्षिण से पूर्व मुडकर रामगोपाल रिणवा के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर इन्द्ररलाल नोवाल व हवेली तक यहा पूर्व मुडकर नरेडो के मकान को शामिल करते हुये विवेकानन्द स्कूल तक यहां से दक्षिण मुडकर विवेकानन्द के कोने तक यहां से पूर्व मुडकर गिरधारीलाल जोशी के मकान तक यहां से दक्षिण मुडकर शेखो की कुई तक यहां से पूर्व मुडकर धोबियो के नोहरे को शामिल करते</p>

		हुये उत्तर मुडकर सोकत व्यापारी के नोहरे तक युसूब कसाई के मकान तक, यहा से उत्तर मुडकर बाई आबादी शामिल करते हुये काजियो के मकान तक, यहा से पश्चिम मुडकर मोती माली के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर बासूदेव जी बोचिवाल के मकान तक यहां से पूर्व मुडकर बुद्धरमल चोटिया की चक्की तक यहां से उत्तर मुडकर रामोतार चोटिया तक यहां से पश्चिम मुडकर बोचिवाल भवन व परतूराम निर्मल को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
32	32	बावडीगेट पर स्थित नुनिया की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में राजश्री कॉम्पलेक्स के पास स्थित दुकानो तक इसे शामिल कर पूर्व घुमकर सतसंग भवन को दांयी ओर बाहर छोडते हुये पोस्ट ऑफिस व श्याम सुन्दर पीपलवा के मकान तक इसे शामिल करते हुये रामरिख दास पोदार के नोहरे तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर बजरंग लाल डाकिये के मकान तक इसे शामिल कर रोड पार कर जगदीद्गा काछवाल व नरसिंगदास सीलावट को शामिल करते हुये डॉ. दीलिप सिंह के मकान को शामिल कर रोड पर कर रामू पेडे वाले की हवेली को शामिल कर चौधरियो की हवेली तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर गोयनका मन्दिर को शामिल करते हुये द्वारका प्रसाद जी के मकान तक यहां से दक्षिण में लूणजी चमडिया के मकान को शामिल कर पश्चिम में राजपूत छात्रावास को शामिल कर मन्नालाल ढण्ड के मकान तक यहां से जालान होस्टल की खाली जमीन तक इसे शामिल कर पूर्व से दक्षिण घुमकर सांवरमल विडियो ग्राफी के मकान से राधेद्गयाम सिलावट की दुकान तक यहां से पश्चिम में राजकुमार पारीक डॉ. रामगोपाल देवयानी अस्पताल को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक।
33	33	घनश्याम जांगिड के नोहरे से शुरू होकर दक्षिण में बांयी आबादी शामिल करते हुये शिवजी हिसारिया के मकान तक यहां से पूर्व रामनारायण देवडा की हवेली तक यहां उत्तर मुडकर गुलाम पीर को छोडकर पूर्व मुडकर तेलियो की मदरसा तक इसे छोडकर उत्तर कालूर गुर्जर को शामिल कर सिंघारिया बगिची को शामिल कर यासीन तेली (सैक्रेटरी) को शामिल कर उत्तर से पूर्व घुमकर यहां से मुडकर गिरधारी प्रजापत को शामिल करते हुये बाबूलाल सैनी तक इसे शामिल कर उत्तर में अब्दुलहक व आमीन सहद के मकान को शामिल कर पश्चिम में शंकर जांगिड तक इसको शामिल कर कमल जांगिड मखन हरिजन तक इसको शामिल कर इसाक मुरीद के मकान तक इसको शामिल कर दक्षिण में मगजी चोटिया कानजी माटोलिया तक यहां से पश्चिम मुडकर बालाजी मन्दिर व पानी की टंकी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
34	34	श्री सदन से शुरू होकर दक्षिण में अनुप बिंयाला के मकान तक इसे शामिल कर नेवटिया हवेली तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर आत्माराम धेलिया के नोहरे

		<p>तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर गोविन्दराम चोधरी के मकान को शामिल करते हुये पोदार अस्पताल तक इसे शामिल कर पूर्व में मुडकर राजेन्द्र प्रसाद सिलावट की दुकान तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर निर्मलो को मकान में निरंजन महाराज को शामिल करते हुये देवडा कोठी तक इसे शामिल करते पूर्व में घुमकर बांई आबादी शामिल करते हुये राजपूत छात्रावास को बाहर छोडते हुये देवडो के मकान तक इसको शामिल कर उत्तर में आंखो के अस्पताल तक यहां से पूर्व घुमकर सांवरमल प्रजापत के मकान तक इसे शामिल कर जुगल खेडवाल के मकान तक यहां उत्तर मुडकर नरेन्द्र महर्षि को शामिल कर शनि मन्दिर तक। यहां से पश्चिम मुडकर पंचमुखी बालाजी तक यहां से उत्तर मुडकर महावीर जांगिड के कारखाने को शामिल करते हुये पारीको के मकान तक यहां पश्चिम मुडकर में नादेनली प्रिंस की हवेली को एवं बाबूलाल गोयनका को शामिल करते हुये सीधे प्रारम्भिक स्थान तक</p>
35	35	<p>गुलाम पीर के मकान से अब्दुल करीम मुल्ला के नोहरे को शामिल करते हुये दक्षिण में पुराने पिंजरापोल को शामिल कर मण्डावा रोड होते हुये राजू चमडिया के नोहरे तक इसको शामिल कर फेजूदीन मुन्सी को बाहर छोडते हुये उत्तर में कालू बल्लू लिलगर तक इसको शामिल कर पश्चिम से उत्तर मुडकर तेलियान धर्मशाला को बाहर छोडते हुये सलीम असगर अली लिलगर को शामिल करते हुये पूर्व से उत्तर घुमकर अब्दुल करीम मरीद के नोहरे तक इसे शामिल कर मदरसा तेलियान तक यहां से हाजी अलानूर तेली के मकान व भवरा गुर्जर के मकान को शामिल करते हुये आदम अंसारी की दुकानो तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर इदू कादर आटा चक्की तक यहां से उत्तर घुमकर इमरान सलीम सोलंकी को शामिल करते हुये फतेह मोहम्मद इस्माईल तेली तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर तेलियान कब्रिस्तान को शामिल कर उत्तर मुडकर हाजी तालबदीन की हवेली व लाल मोहम्मद बर्ी के नोहरे को शामिल कर रजाक तेली निर्वाण की दुकान को शामिल कर पश्चिम मुडकर बाबूलाल खाती को शामिल करते हुये दक्षिण मुडकर यासीन तेली व पार्वती सदन को शामिल करते हुये तेलियो की मदरसा को शामिल करते हुये पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक स्थान तक।</p>
36	36	<p>निजामुदीन व्यापारी के मकान से शुरू होकर दक्षिण में याकूब चौहान को शामिल करते हुये अलादीन सोलंकी तक यहां से पश्चिम मुडकर पीर बाबा मोहम्मद सरीफ के मकान को शामिल करते हुये मुन्सी लीलगर तक इसे शामिल कर उत्तर में रफू पठान को शामिल कर पश्चिम में इमामूदीन रमतुल्ला निर्वाण तक इसे शामिल कर दक्षिण में इशाक मणियार तक इसे शामिल कर पश्चिम से उत्तर मुडकर तेलियान धर्मशाला को शामिल कर पूर्व में रोद्गान बनारसा लीलगर के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण में मुंशी के मकान तक</p>

		इसे शामिल कर पूर्व में काजियो की बाड़ी द्गिवालय को शामिल करते हुये नेवटिया के बंगले तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये रेल्वे पटरियो को बाहर छोडते हुये यासीन नाई के घर तक यहां से पश्चिम मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये हाजी तालबदीन की कोठी को बाहर छोडते हुये दक्षिण मुडकर यहां से पूर्व मुडकर प्रारम्भिक स्थान तक।
37	37	जयकरण चोहान के मकान से शुरू होकर दक्षिण में रेल्वे सडक पहुंच कर मुगलो की मस्जिद को शामिल करते हुये फुलजी मास्टर मकान तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर चोधरियो के कुवे को शामिल करते हुये असलम के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर पवन माली के मकान को शामिल कर मुगलो के कुवे तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर दयाराम के मकान व नोहरे तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर बाजोरिया पाठशाला को शामिल करते हुये उत्तर मुडकर हाईमास्क लाईट तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर बूबना धर्मशाला तक इसे शामिल करते हुये उत्तर मुडकर रेल्वे क्वाटर्स को दांयी ओर बाहर छोडते हुये जीवणजी माली को शामिल करते हुये रफीक खत्री के घर तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर मारोठिया भवन व तीन कोठी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।
38	38	खान पीसीओ से शुरू होकर यहां से दक्षिण में मुडकर रामावतार माली के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व में हरफुल कम्पाउन्डर के मकान तक यहां से दक्षिण घुमकर बाई आबादी शामिल करते हुये गिरधारीलाल तक यहां से पश्चिम घुमकर मालियो के मन्दिर से शुरू होकर दक्षिण से प्रजापति पीसीओ तक यहां से पश्चिम घुमकर विधाधर चोटिया को शामिल करते हुये आमीन भाटीया तक यहां से दक्षिण मुडकर कृष्ण कुमार नागवान के मकान से तक इसे शामिल कर पूर्व से उत्तर घुमकर रेल्वे पटरियो को बाहर छोडते हुये रेल्वे क्वाटरो को शामिल करते हुये गणपत माली की दुकान तक यहां से पश्चिम मुडकर बाजोरिया की पाठशाला के उत्तरी पश्चिम कोने तक यहां से पूर्व से दक्षिण घुमकर शबीर काजी को शामिल कर तैयब काजी की दुकान तक यहां से पश्चिम मुडकर काजियो के मदरसे को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक।
39	39	झाबर नाई के मकान से शुरू होकर दक्षिण में भोमजी पीपलवा चिरंजीलाल पीपलवा को शामिल करते हुये रोड रोड पार कर मांगीलाल चोटिया के बाडे तक इसे शामिल कर पूर्व में बांयी आबादी शामिल करते हुये मोती मीणा के मकान व दुकान तक इसे शामिल कर उत्तर में नथमल जोधराज नागवान को शामिल करते हुये रफीक सिक्का के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर भंवरलाल कम्पाउन्डर व स्वामी आयल मील तक यहां से उत्तर मुडकर नथमल, मोहनलाल महर्षि के मकान तक इसे शामिल करते हुये रामचन्द्र माली के मकान तक यहां से रामचन्द्र माली को शामिल कर पश्चिम मुडकर प्रारम्भिक



		स्थान तक
40	40	रामचन्द्र सुनार से शुरू होकर दक्षिण में ओमप्रकादगा हरितवाल तक इसे शामिल कर पूर्व मुड़कर नीम के पेड़ को शामिल कर उत्तर से पूर्व मुड़कर पूर्व से उत्तर मुड़कर महावीर खाती के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व मुड़कर रामगोपाल आचार्य को शामिल कर दक्षिण मुड़कर आमीन चोबदार को शामिल कर पूर्व मुड़कर मंजूर काजी के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर गणपत गढवाल को शामिल कर पूर्व मुड़कर मनीष मीणा के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण मुड़कर सज्जन मिष्ठान को शामिल कर दक्षिण में रेल्वे पुलिया को बाहर छोड़ते हुये उत्तर मुड़कर रेल्वे पटरी के सहारे से चलकर ताराचन्द की दुकान व शुभकरण मीणा का नोहरा तक इसे शामिल कर पश्चिम मुड़कर कटारिया बर्तन भण्डार व शिवकुमार शिवराण को शामिल कर यहां से दक्षिण में हरफुल जी के नये मकान तक बुद्धरमल चोटिया की चक्की को बाहर छोड़ते हुये पश्चिम मुड़कर गिरधारी लाल सोनी तक इसे शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक।
41	41	रामोतार माली पुत्र श्री मोहन माली के घर से शुरू होकर दक्षिण में मुड़कर घीसाराम माली तक इसे शामिल कर पूर्व में गिरधारी लाल/सुरजमल माली तक इसे शामिल कर दक्षिण मुड़कर शेखो की मस्जिद को बाहर छोड़ते हुये खालीक तंवर की दुकान तक इसे शामिल कर लच्छीराम पोदार तक यहां से दक्षिण मुड़कर गफूर व्यापारी के मकान को शामिल कर नोरंगलाल खींची के खाली नोहरे तक इसे शामिल कर पूर्व मुड़कर पप्पू बाबूलाल के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण मुड़कर आशाराम के मकान व खाली प्लाट तक यहां से पूर्व मुड़कर शंकर के बाड़े तक उत्तर में रामदेव महरिया तक यहां से पूर्व में अमरू चिराणिया तक इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर सज्जन मिष्ठान भण्डार को बाहर छोड़ते हुये सलीम शेख को शामिल कर जगदीश माली पुत्र श्री देबूराम माली को शामिल कर दक्षिण में युसूफ काजी को शामिल करते हुये पश्चिम में जब्बार शेख को शामिल करते हुये रूस्तम शेख को शामिल कर दांयी आबादी को बाहर छोड़ते हुये पश्चिम में सत्यनारायण को शामिल करते हुये दक्षिण मुड़कर बांयी आबादी को बाहर छोड़ते हुये बसीर शेख को शामिल कर पश्चिम में चलकर प्रारम्भिक स्थान तक।
42	42	प्रहलाद जोगी से शुरू होकर दक्षिण में बांयी आबादी शामिल कर मटरू सांवरमल जोगी के मकान तक यहां से पूर्व मुड़कर मोहन लाल जोगी के मकान तक यहां से दक्षिण में मुड़कर गणपत महावीर सांखला के मकान तक इसको शामिल कर उत्तर में चोटालाल/हुणताराम तक इसको शामिल कर पश्चिम मुड़कर रूडमल सांखला तक इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर नानी बुआ की दुकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुड़कर बांयी आबादी शामिल कर यासीन गुर्जर को शामिल

		करते हुये सजामुराद मंजिल तक यहां से सुमेर राजपूत से दक्षिण मुडकर रामौतार जी मिटावा तक इसे शामिल कर यहां से पश्चिम मुडकर बनवारी/जुगलनाथ तक इसे शामिल कर यहां से उत्तर मुडकर गोपाल माली तक यहां से पश्चिम मुडकर साजिद पार्शद के घर को शामिल कर प्रारम्भिक स्थान तक
43	43	गिगराज माली की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में बोदराज खटीक के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व से ..... दक्षिण में नगर पालिका सीमा - सीमा होते हुये हनुमानगढ बालाजी को शामिल कर रेल्वे लाईन को बाहर छोडते हुये उत्तर मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये पोखर चिराणिया के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर बीरबल के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम में मुडकर खाली प्लाट तक यहां मुडकर सांवरमल लीलाराम मघाराम दायमा तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये नोरंगलाल खींची के बंगले तक यहां से उत्तर मुडकर सुभाष स्कूल तक यहां से पश्चिम मुडकर गिरधारीलाल माली व गिगराज माली की दुकान तक
44	44	नगर पालिका पम्प हाउस से शुरू होकर दक्षिण में सामुदायिक भवन को शामिल करते हुये पालिका सीमा - सीमा रेल्वे पटरी को दांयी ओर छोडते हुये श्रवण केसरदेव सांखला तक इसे शामिल कर सीमा - सीमा बंजारा बस्ती को शामिल कर उत्तर से पूर्व घुमकर सीमा - सीमा सुखानन्द सरावगी के कुए को शामिल करते हुये उदनसरी रोड तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये यहां से दक्षिण में घुमकर प्रारम्भिक स्थान तक
45	45	हनीफ अंसारी के मकान से दक्षिण मे चलकर तोलाराम प्रजापत को शामिल कर उनदसरी रोड तक यहां से पूर्व घुमकर रोड रोड पालिका सीमा तक यहां से उत्तर घुमकर पालिका की सीमा सीमा नन्दू पारीक को शामिल करते हुये हाजी की बाडी तक यहां से पश्चिम घुमकर बजरंग लाल महर्षि के मकान को शामिल कर दक्षिण घुमकर रोड रोड मरीद के मकान को शामिल कर नेमीचन्द की दुकान तक, पश्चिम घुमकर इकबाल खां का नोहरा शामिल कर प्रारंभिक स्थान तक।
46	46	ओम शान्ति से शुरू होकर दक्षिण मे रेल पटरी पटरी होते हुये इकबाल अंसारी को शामिल करते हुये गूडडू खां कायमखानी के मकान को शामिल करते हुये असगर खां कामयखानी के मकान तक पूर्व घुमकर बायीं आबादी को शामिल करते हुये अलादीन के मकान को शामिल कर शंकर जांगिड के मकान को शामिल कर प्रभु सिंगोदिया के मकान तक शामिल कर उत्तर घुमकर हाजरा मिरासी के मकान को शामिल कर सुलेमान काजी के मकान को शामिल कर बालूराम प्रजापत के मकान को शामिल कर समशाद खां के मकान तक यहां से पूर्व घुमकर बुबना

		कुवा की बाउन्ड्री तक यहां से उत्तर घुमकर बायीं आबादी शामिल कर मामराज प्रजापत की दुकान तक यहां से पूर्व घुमकर राजकुमार सैनी का मकान शामिल करते हुये बृजमोहन जाट के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर घुमकर प्रमोद माली के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम से उत्तर घुमकर बाबुलाल आलडिया का मकान शामिल करते हुये रामदेवजी के मन्दिर तक यहां से पूर्व घुमकर रामूजी माली गणदेगा माली के मकान को शामिल कर गिरधारी सैनी के मकान तक यहां से उत्तर घुमकर मंगतूराम सैनी के मकान तक यहां से पश्चिम घुमकर मंगतु राम प्रजापत के मकान को शामिल करते हुये प्रारंभिक स्थान तक।
47	47	आउटर सिंगल रेल्वे पटरी पटरी मण्डावा पुल तक यहां से पूर्व घुमकर पिंजरापोल शामिल कर बालाजी के मन्दिर तक यहां से दक्षिण घुमकर घीसाराम सैनी के मकान को शामिल कर तोलाराम सैनी के घर तक यहां से पश्चिम घुमकर गोपाल सैनी के मकान शामिल कर पानी के ट्यूबवेल तक यहां से दक्षिण घुमकर सांवरमल सैनी का मकान शामिल करते हुये ललता शर्मा के खाली प्लाट को शामिल करते हुये सुरेश मारोठियां के खाली प्लाट तक यहां से पूर्व घुमकर चुन्नीलाल प्रजापत के मकान तक यहां से दक्षिण घुमकर कुरडाराम सैनी के मकान को शामिल करते हुये तिलोकजी जाट के मकान तक यहां से पश्चिम घुमकर श्यामजी माली का खाली प्लाट शामिल करते हुये ग्राम सेवक के खाली प्लाट तक यहां से दक्षिण घुमकर रवि पब्लिक स्कूल तक यहां पूर्व घुमकर राजू जाट श्यामजी माली को शामिल कर पालिका की सीमा तक यहां से उत्तर घुमकर पालिका सीमा सीमा होते हुये बीड के दायीं और छोडते हुये रामदेगवर सिंघानियां की प्याउ तक यहां से पश्चिम घुमकर बायीं आबादी को शामिल करते हुये प्रारंभिक स्थान तक
48	48	अमृतनाथ आश्रम से शुरू होकर दक्षिण में बांयी आबादी शामिल करते हुये संस्कृत कॉलेज तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर जांगिड विधालय के पश्चिम गेट तक यहां से दक्षिण मुडकर कैलाश भूतिया के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर बालाजी मन्दिर के सामने जांगिडो के मकान यहां से दक्षिण मुडकर अखतर तगाला को शामिल कर पुर्व घुमकर विजय कुमार परमेश्वर लाल हरिजन को शामिल कर कैलाश जांगिड से पुर्व मुडकर खालिद मोहम्मद नाई तक सिंघानियां की बगीची को शामिल, बरकत नगर को शामिल करते हुये उत्तर घुमकर सीमा सीमा सिंघानिया प्याउ यहां से प्याउ को दांयी ओर बाहर छोडते हुए पश्चिम घुमकर विनोद जांगिड के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण से निसार नाई के नोहरे तक इसे शामिल कर पश्चिम घुमर नत्थू किसना हरिजन को शामिल कर ओमप्रकाश जिनकू तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर

		थावरमल सुरजाराम जांगिड के बन्द मकान तक यहां से पूर्व मुडकर शंकर जांगिड तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर जांगिड विधालय के पिछे का गेट को शामिल करते हुये लालचन्द चोहान के नोहरे तक इसे शामिल कर बांयी आबादी शामिल करते हुये पश्चिम मुडकर नोरंगलाल माहिचा व बुधरमल बरवड़ को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।
49	49	श्री महावीर पुरोहित की दुकान से शुरू होकर दक्षिण मे उमरदीन लुहार तक इसे शामिल कर पुर्व मे हारून लुहार के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर मकी मस्जिद इसे शामिल कर पुर्व मुडकर खाली प्लाट तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर चमडिया कॉलेज का दक्षिणी पश्चिमी कोना तक इसे शामिल कर पुर्व मुडकर चमडिया कॉलेज उत्तर मुडकर अमृतनाथ आश्रम सुनारों की धर्मशाला को शामिल करते हुये सीधे चलकर रास्ते रास्ते आशाराम जाट शमशान भुमि को शामिल करते हुये कानाराम जाट के मकान को शामिल कर रामचन्द्र प्रहलाल हरलाल जाट तक यहां से पुर्व घुमकर पूर्णाराम जाट भुराराम जाट को शामिल करते हुये रामप्रसाद माली तक यहां से पश्चिम मुडकर नगर पालिका सीमा सीमा तक यहां से दक्षिण घुमकर राकसियों की ढाणी भरतिया कृषि फार्म को शामिल करते हुये शिव नगर खसरा नं. 821 व मुशानिया जोहडा को बाहर छोडते हुये चमडिया कॉलेज के पीछे होते हुये भरतिया कृषि विज्ञान केन्द्र लियाकत लुहार की दुकान को बाहर छोडते हुये नथमल शर्मा के नोहरे तक इसे शामिल कर पश्चिम घुमकर नत्थू लुहार के मकान को शामिल कर चुरु रोड पार कर उत्तर से पश्चिम घुमकर मनीर लुहार को शामिल करते हुये प्रारंभिक स्थान तक।
50	50	कुआ खेमकान से शुरू होकर दक्षिण में रास्ते रास्ते होते हुए नाथजी की धर्मशाला तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये बाबूलाल माहिचा के मकान को शामिल करते हुये बिरबल महिचा तक इसे शामिल कर दक्षिण में मुडकर कैलाद्गा भूतिया के मकान तक यहां से दक्षिण से पश्चिम मुडकर खुर्सीद मुरीद तथा दक्षिण मुडकर सकूर मुरीद इसे शामिल कर पूर्व मुडकर मजीद खां के मकान तक यहां से उत्तर मुडकर राधेश्याम मूनीम के नोहरे तक यहां से बांयी आबादी शामिल करते हुये सिंघानिया प्याउ तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर नगर पालिका सीमा सीमा होते हुये प्रारम्भिक स्थान तक
51	51	इश्वर जाट से शुरू होकर दक्षिण मे लुहारों की मस्जिद के पीछे के कोने तक यहां से पुर्व घुमकर राजू नाई को शामिल कर भरतिया अस्पताल को शामिल करते हुये चण्डी के कुवे तक इसको शामिल कर दक्षिण मे रोड रोड कर मोती कुम्हार शंकर सेठी को शामिल कर सिंघानिया की छतरी तक इसे शामिल कर पुर्व

		मुडकर बायीं आबादी को शामिल करते हुये सतीदगा नाई (भाटी) को शामिल कर उत्तर मुडकर हरिजनों के सामुदायिक भवन व स्कूल को शामिल करते हुये बालाजी मन्दिर तक इसको शामिल कर मिर्जा हाजी तक यहां से उत्तर मुडकर जांगिड़ वैधिक विधालय के मुख्य गेट को छोडते हुये बजरंगलाल जांगिड़ तक यहां से पश्चिम मे मंगल जांगिड़ व रामेश्वर जोगी को शामिल करते हुये भरतियों के नोहरे तक यहां से दक्षिण मुडकर जीवन सुधा स्कूल को शामिल करते हुये पश्चिम मुडकर बायीं आबादी शामिल करते हुये रामगढ़ रोड होते हुये दक्षिण मुडकर झाबरमल नाई के मकान तक यहां से पश्चिम मुडकर बायीं आबादी को शामिल करते हुये प्रारंभिक स्थान तक।
52	52	सारस्वत पेट्रोल पम्प से शुरू होकर दक्षिण में रोड रोड गिरधारी हलवाई व शिवाजी स्कूल को शामिल करते हुये पूर्व में चुरु रोड (किशनजीलाल नाई का मकान) तक यहां से दक्षिण घुमकर भैरामल शिवालय जाट छात्रावास को शामिल करते हुये कालीजी के मन्दिर दक्षिण पदगिचमी कोनो तक इसे शामिल कर पूर्व घुमकर बांयी आबादी शामिल करते हुये नानूराम कुम्हार बेल्लिंग दुकान से मैन रोड चुरु रोड पहुंचकर भरतिया कृषि विज्ञान केन्द्र को शामिल करते हुये पालिका भूमि खसरा नं. 821 होते हुये पालिका सीमा सीमा पश्चिम मुडकर लक्ष्मीनाथ नगर व शिवगर को शामिल करते हुये बांयी आबादी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।
53	53	(एनएच-65) पर कायमखानियो के बन्द नोहरे से शुरू होकर दक्षिण में फुलजी ठेकेदार प्यारेलाल जाट को शामिल करते हुये यहां से पूर्व मुडकर हरिजन श्मशान भूमि तक यहां से पूर्व मे मुडकर सम्पत हरिजन के बाडे तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर बांयी आबादी शामिल कर पूरणमल कुम्हार तक यहां से पूर्व मुडकर नारायण जाट तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर मनीरदीन मणियार तक इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर शिवकुमार शर्मा के मकान को शामिल करते हुये महावीर खाती के नोहरे तक इसे शामिल कर दक्षिण मुडकर प्रहलाद खाती इसे शामिल कर पश्चिम मुडकर शेफा माली तक यहां से दक्षिण में वाहिद मरीद को शामिल करते हुये पूर्व घुमकर शिवभगवान रेबारी को शामिल करते हुये निरंजन नाई तक इसे शामिल कर विनोद नाई के मकान तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर ओमप्रकाश चक्कीवाला तक इसे शामिल कर पूर्व मुडकर रामेश्वर कुम्हार को शामिल करते हुये प्रमोद भार्गव व बालाजी मन्दिर को शामिल करते हुये उत्तर मुडकर पीरामल भार्गव तक इसे शामिल कर पूर्व में बांयी आबादी शामिल करते हुये मटरू भार्गव तक इसे शामिल कर उत्तर मुडकर दिनेश भार्गव (पप्पू भार्गव) तक इसे शामिल कर बनवारी हलवाई को शामिल कर पूर्व मुडकर श्यामजी जांगिड़ एवं भगवती प्रसाद माली तक यहां मंगलचन्द्र

		माली को बाहर छोड़ते हुये प्रहलाद माली के घर को बाहर छोड़ते हुये गोगराज शर्मा को शामिल करते हुये उत्तर मुड़कर पोलाराम कुम्हार धोली सत्ती को शामिल करते हुये सांवर मल जांगिड तक इसे शामिल कर पश्चिम घुमकर किशनजीलाल नाई बाबूलाल माली को शामिल कर गिरधारी शर्मा व पेट्रोल पम्प को बाहर छोड़ते हुये मोती कुम्हार की बाडी व मोहन वाटिका तक इसे शामिल कर पश्चिम मुड़कर बांयी आबादी शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।
54	54	अजीज अंसारी से शुरू होकर दक्षिण मे लियाकत खां के घर को शामिल कर पश्चिम मे मुड़कर रोशन मणियार तक यहां से संतोषी माता मन्दिर व राजकुमार/महावीर हरिजन को शामिल करते हुये हरिजनो की जमीन तक इसे शामिल कर सामुदायिक भवन को दांयी ओर बाहर छोड़ते हुये हारून कसाई के मकान तक इसे शामिल कर पूर्व मुड़कर विश्वनाथ तिवाडी को बाहर छोड़ते हुये दक्षिण मुड़कर रहुफ चेजारा को शामिल करते हुये नन्दू टी स्टाल तक यहां से पूर्व मुड़कर मणियारों के मकान एवं मकदुम चेजारा तक इसे उत्तर मुड़कर महबूब/मकबूल चेजारा के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मे समून/सलीम लंगा तक यहां से उत्तर मुड़कर सीधे मोयली गली होते हुये रोशन मणियार तक यहां से पूर्व मुड़कर मुरीदों के नोहरे तक इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर इस्माइल अंसारी तक इसे शामिल कर पश्चिम मुड़कर झाबरजी कुम्हार डालचन्द कुम्हार की दुकान तक यहां से पश्चिम में आमीन चेजारा तक यहां से दक्षिण मुड़कर बांयी आबादी शामिल करते हुये राजू गणेश व पप्पू कुम्हार तक यहां से पश्चिम मुड़कर भैरूजी मन्दिर तक इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर पालिका की खाली जमीन तक यहां से पश्चिम मुड़कर प्रारम्भिक स्थान तक।
55	55	राधेश्याम जांगिड के नोहरे से शुरू होकर दक्षिण में मोहिदीन/इस्माइल खां को शामिल करते हुये बांयी आबादी शामिल करते हुये इलियास कायमखानी के मकान तक यहां से पश्चिम मुड़कर चेजारा मदरसा को बाहर छोड़ते हुये चुसाराम हरिजन के मकान तक इसे शामिल कर दक्षिण मुड़कर पप्पु चांवरिया के मकान को शामिल करते हुये विक्रम पप्पु के नोहरे तक इसे शामिल कर पूर्व मुड़कर नन्दू जमादार 10 नम्बर स्कूल को शामिल करते हुये सिकन्दर खां/लियाकत खां के मकान को शामिल करते हुये इसाक खां के मकान तक यहां से उत्तर मुड़कर बांयी आबादी शामिल करते हुये याकुब खां के मकान तक यहां से पूर्व मुड़कर मोहसीन चेजारा के मकान तक यहां से दक्षिण मुड़कर सरवर चेजारा तक यहां से पूर्व मुड़कर लियाकत रहिम खां के मकान तक यहां से उत्तर मुड़कर बांयी आबादी शामिल करते हुये सोकत के मकान तक इसे शामिल कर पश्चिम मुड़कर मोहम्मद अली अंसारी के घर तक इसे शामिल कर उत्तर मुड़कर आमीन चेजारा तक यहां से पूर्व मुड़कर विनोद कुम्हार फूलचन्द कुम्हार से उत्तर मुड़कर

	<p>महेशजी दर्जी तक यहां से पूर्व मुडकर कानाराम कुम्हार को शामिल करते हुये परसाराम जाट तक यहां से जगदीश जाट तक यहां से पश्चिम में 06 नम्बर स्कूल तक इसे शामिल कर उत्तर में केशर कुम्हार एवं सुभाष कुम्हार से पश्चिम में बालाजी मन्दिर को शामिल करते हुये एनएच 65 तक यहां से पश्चिम मुडकर बांयी आबादी शामिल करते हुये प्रारम्भिक स्थान तक।</p>
--	--

अधिशायी अधिकायी  
नगर पालिका फतेहपुर

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।